

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 554]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2010—आश्विन 23, शक 1932

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर, 2010 (आश्विन 23, 1932)

क्र. 20564-वि.स.-विधान-2010.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 5 अक्टूबर, 2010 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्वारा इस राज्य की विधान सभा को सोमवार, दिनांक 22 नवम्बर, 2010 को पूर्वान्ह 10.30 बजे भोपाल में समवेत् होने के लिये आमंत्रित करता हूं.

भोपाल :
दिनांक 5 अक्टूबर, 2010.

रामेश्वर ठाकुर
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.”

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.